

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 620]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2014—पौष 2, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1749.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, बालाघाट, जिला बालाघाट के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, बालाघाट, जिला बालाघाट.	अध्यक्ष	-	अनिल धुवारे	भारतीय जनता पार्टी	
2		पार्षद	1	एक	क्षमा मुकुन्द बंसोड	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	ललीत चौके	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	साबिर मंसूरी	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	भूमेश्वरी तिवडे	समाजवादी पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	रामभाऊ पिता हिरालाल	इंडियन नेशनल कंग्रेस
7		पार्षद	6	छ:	मनोज अहिरकर पिता स्व. गेंदलाल अहिरकार.	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	नगरपालिका परिषद्, बालाघाट, जिला बालाघाट.	पार्षद	7	सात	छबीराम नागेश्वर	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	खेवेन बाहेश्वर	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	मो. शफकत मो. शिफात	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
11		पार्षद	10	दस	फहमिदा पति शेख शाबीर	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	रामलाल बिसेन	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	‘सरिता केवल सोनेकर’	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	सिद्धार्थ टीकाराम शेन्डे	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	यासीन खान	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रेखा सिंह ठाकुर (बब्बा)	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	मनीष वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	नीतू अनिल कुमार	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
19		पार्षद	18	अट्ठारह	मन्जू राजेन्द्र चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	कल्लू निर्मल सोनी	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
21		पार्षद	20	बीस	सुरेश कोचर	निर्दलीय
22		पार्षद	21	इक्कीस	चित्रवर्ण पिता स्व. श्री राजबहादुर	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	संतोष जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेर्इस	रविता पति अशोक मेरावी	भारतीय जनता पार्टी
25		पार्षद	24	चौबीस	राजेश मढ़के	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पच्चीस	श्रीमति चंचल चन्द्रकान्त पिपलेवार	निर्दलीय
27		पार्षद	26	छब्बीस	विनय बोपचे	भारतीय जनता पार्टी
28		पार्षद	27	सत्ताईस	श्रीमति लता सुनील खोटेले	भारतीय जनता पार्टी
29		पार्षद	28	अट्ठाईस	श्रीमती बीणा दिलीप कर्नौजिया	भारतीय जनता पार्टी
30		पार्षद	29	उन्नीस	श्रीमती लक्ष्मी विनय जैसवाल	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	गौरी राजेश लिल्हारे	भारतीय जनता पार्टी
32		पार्षद	31	इकतीस	श्रीमती अनिता कमलेश पांचे	भारतीय जनता पार्टी
33		पार्षद	32	बत्तीस	अलका महेन्द्र रामटेकर	निर्दलीय
34		पार्षद	33	तैनीस	बिन्दु सन्तोष लिल्हारे	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1750.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद, बारासिवनी, जिला बालाघाट के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक (1)	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक के वेल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में (4) (5)		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
			(4)	(5)		
1	नगरपालिका परिषद्, बारासिवनी, जिला बालाघाट.	अध्यक्ष	-	-	विवेक 'विक्की' पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	रविन्द्र माने	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	प्रिति संतोष शिव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	"तुलसीदास व्यास"	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	रामकली टेकाम	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	सुनिल कुमार जायस्वाल 'सोनू'	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	दीपलता हेमन्त देशमुख	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	"राकेश लालवानी (पप्पू)"	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	रश्मि बाबी परिहार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	श्यामा/हितेश बोरकर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	संदीप मिश्रा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती गजराबाई कुल्हाडे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमती सरिता दांदरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	प्रवीण गोविन्द प्रसाद रूसिया	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	विवेक उम्मेद ऐडे (विक्की)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	श्रीमती प्रेमलता राजू कनौजिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1751.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद, मलाजखंड, जिला बालाघाट के माह

दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में शब्दों में		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			(4)	(5)		
(1)	(2)	(3)			(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, मलाजखंड, जिला बालाघाट.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती मीना देवेन्द्र सिंह मर्सकोले	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	बजरो बाई धनुषसिंह	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	दुर्गेश्वरी दीपक ब्रह्मे	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	कमल प्रसाद राहंगडाले	निर्दलीय
5		पार्षद	4	चार	कपूरदास टांडिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	पुरनलाल चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छ:	अंजू राजू गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	सरला झामसिंह मेरावी	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	श्रीमति उरमिला पति श्री शंकर हिरवाने	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमति कमला लखन सौलखे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	श्री रायसिंह बरकडे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	मालती बिदेसिंह उड़के	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमति कला मरकाम w/o बुधसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	श्री यशवन्त मरकाम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	श्री पवनकुमार दुलमसिंह मेरावी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सुरेश पटले/ पिता बेनीराम पटले	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	श्रीमति रूपा बघेल	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	कृष्णा लाहोरी	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अट्ठारह	श्रीमति त्रिवेणी भागवत गोस्वामी	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	श्रीमति जयश्री संतोष मरकाम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
21		पार्षद	20	बीस	गणेश उड़के	इंडियन नेशनल कांग्रेस
22		पार्षद	21	इक्कीस	श्रीमति ज्योति नाग	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	श्रीमती उमराबाई महाबीर	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेर्इस	रैनसिंह नेताम	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1752.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, कटंगी, जिला बालाघाट के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अव्यक्त / पार्श्व निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु		निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
			अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, कटंगी, जिला बालाघाट.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमति अर्चना अनिल जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	गायत्री डॉ. योगराज ठाकरे	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	योगेन्द्र (छोटू) राहंगडाले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	कुंवर मासुरकर	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	अविनाश (मानू) चौकसे	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	दागेन्द्र जेठू राउत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छ:	श्रीमती आशा बलदेव कड़वे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	प्रशांत हरिन्द्र हुमनेकर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	अ. रहमान अंसारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	शाहीन अंजुम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	दीपक कुड़वेती	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	श्रीमती सिम्मी संदीप सोनपुरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमती बबीता महेन्द्र कटारिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमती कविता बाबूराव आम्बेडारे	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	मधु संजय चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कैलाश काजू शर्मा	समाजवादी पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता ।

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव

## मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.